

Isa

Chapter 33

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
וְהָיָה לְךָ חַיָּל וְלֹא יִשְׁתָּדֵף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף
हाय लुटेरे और-तू लूटा-गया लूटा-गया लूटा-गया लूटा-गया लूटा-गया
उससे विश्वासघात-किया-गया और-नहीं- और-विश्वासघाती और-विश्वासघाती और-विश्वासघाती और-विश्वासघाती
H0898 H3808 H0898 H7703 H3808 H7703 H1945

2
וְהָיָה לְךָ חַיָּל וְלֹא יִשְׁתָּדֵף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף
तुझसे वे-विश्वासघात-करेंगे- विश्वासघात-करना विश्वासघात-करना जैसे-तू-समाप्त-करे तू-लूटा-जाएगा लूटना लूटना जैसे-तू-समाप्त-करे
H0898 H0898 H5239 H7703 H7703 H8552

देखो, तुम लोग लड़ाई करते हो और उन लोगों की वस्तुएँ लूटते हो और वह भी ऐसे लोगों कि जिन्होंने कभी कोई तुम्हारी वस्तु नहीं चोरी की। तुम ऐसे लोगों को धोखा देते रहे जिन्होंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। इसलिये जब तुम चोरी करना बन्द कर दोगे तो दूसरे लोग तुम्हारी वस्तुएँ चोरी करना शुरु कर देंगे। जब तुम लोगों को धोखा देना बंद कर दोगे तो लोग तुम्हें धोखा देना आरम्भ कर देंगे। तब तुम कहोगे।

2
וְהָיָה לְךָ חַיָּל וְלֹא יִשְׁתָּדֵף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף
हमारी-मुक्ति भी- प्रातः-कालों-में उनकी-भुजा हो हमने-प्रतीक्षा-की तुझे हम-पर-अनुग्रह-कर यहोवा
H3444 H0637 H1242 H2220 H1961 H3068

3
בְּעֵת סָכָתָה
संकट-के समय-में
H6256

हे यहोवा, हम पर दया कर। हमने तेरे सहारे की बाट जोही है। हे यहोवा, हर सुबह तू हमको शक्ति दे। जब हम विपत्ति में हो, तू हम को बचा ले।

3
מְקוֹל דְּחַלְחָל וְחַלְחָל וְחַלְחָל וְחַלְחָל וְחַלְחָל
ध्वनि-से हलचल-की हलचल-की हलचल-की हलचल-की हलचल-की
राष्ट्र तितर-गए तेरे-उठान-से जातियाँ भागे
H7427 H5074

तेरी शक्तिशाली ध्वनि से लोग डरा करते हैं और वे तुझ से दूर भाग जाते हैं। तेरी महानता के कारण राष्ट्र दूर भाग जाते हैं।

4
וְהָיָה לְךָ חַיָּל וְלֹא יִשְׁתָּדֵף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף
उस-में दौड़ता-है टिड्डियों-का जैसे-दौड़ना टिड्डे-का इकट्ठा तुम्हारी-लूट और-इकट्ठा-की-जाएगी
H8264 H1357 H4944 H2625 H0625 H7998 H0622

तुम लोग युद्ध में चोरी किया करते हो। वे सभी वस्तुएँ तुमसे ले ली जायेंगी। अनगिनत लोग आयेंगे और तुम्हारी धन—दौलत तुमसे छीन लेंगे। यह उस समय का जैसा होगा जब टिड्डी दल आता है और तुम्हारी सभी फसलों को चट कर जाता है।

5
וְהָיָה לְךָ חַיָּל וְלֹא יִשְׁתָּדֵף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף
और-धार्मिकता-से न्याय सिय्योन-को उसने-भरा ऊँचाई-में वह-निवास-करता-है क्योंकि यहोवा महान-है
H6666 H4941 H6726 H4390 H4791 H7931 H3068 H7682

यहोवा बहुत महान है। वह बहुत ऊँचे स्थान पर रहता है। यहोवा सिय्योन को खरेपन और सच्चाई से परिपूर्ण करता है।

6
וְהָיָה לְךָ חַיָּל וְלֹא יִשְׁתָּדֵף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף וְלֹא יִשְׁתָּדָף
वह यहोवा-का भय और-ज्ञान बुद्धि मुक्ति-की बल तेरे-समर्थों-की विश्वासयोग्यता और-होगी
H1931 H3068 H3374 H1847 H2451 H3444 H2633 H6256 H0530 H1961

7
אֲזָרוֹתָיִם
उसका-खजाना-है
H0214

हे यरूशलेम, तू सम्पन्न है। तू परमेश्वर के ज्ञान और विवेक से सम्पन्न है। तू मुक्ति से भरपूर है। तू यहोवा का आदर करता है और वही आदर तुझे सम्पन्न बनाता है। इसीलिए तू जान सकता है कि तू सदा बना रहेगा।

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| יְבֹכְיוּן: | מֵר | שְׁלוֹם | מִלְאָכִי | חֲצָה | צָעֲקוּ | אֲרָאָלָם | הֵן | 7 |
| रोएंगे | कटुता-से | शान्ति-के | दूत | बाहर | चिल्लाए | उनके-वीर | देखो | |
| H1058 | H4751 | H7965 | H4397 | H2351 | H6817 | H0691 | H2005 | |

किन्तु सुनो! वीर पुरुष बाहर पुकार रहे हैं और सन्देशवाहक जो शांति लाते हैं, ज़ोर—ज़ोर से बोल रहे हैं।

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---|
| לֹא | עָרִים | מָאֵס | בְּרִית | הִפָּר | אֲרַח | עֲבַר | שָׁבַת | מַסְלֹת | נָשְׂמוּ | 8 |
| नहीं | नगरों-को | उसने-तुच्छ-जाना | वाचा | उसने-तोड़ा | रास्ते-का | यात्री | रुक-गया | मार्ग | उजड़-गए | |
| H3808 | | | H1285 | | H0734 | | | H4546 | H8074 | |
| | | | | | | | | אָנוּשׁ: | חָשַׁב | |
| | | | | | | | | मनुष्य-को | उसने-माना | |
| | | | | | | | | H0582 | H2803 | |

रास्ते नष्ट हो गये हैं। गलियों में कोई नहीं चल फिर रहा है। लोगों ने जो सन्धियाँ की थी, वे उन्होंने तोड़ दिये हैं। लोग साक्षियों के प्रमाण पर विश्वास करने से मना करते हैं। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का आदर नहीं करता।

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| כְּעֶרְבָה | הַשָּׂרוֹן | הָיָה | קָמַל | לְבָנוֹן | הַחֲפִיר | אֲרִי | אֲמַלְלָהּ | אָבַל | 9 |
| जैसा-अराबाह | शारोन | हो-गया | मुरझा-गया | लेबानोन | लज्जित-हुआ | भूमि | मुरझा-गई | शोक-करती-है | |
| H6160 | H8289 | H1961 | H7060 | H3844 | H2659 | H0776 | H0535 | H0056 | |
| | | | | | | וְכַרְמֵל: | בָּשָׂן | וְנֶעַר | |
| | | | | | | और-कर्मल | बाशान | और-झड़-रहा-है | |
| | | | | | | H3760 | H1316 | H5287 | |

धरती बीमार है और मर रही है। लेबानोन मर रहा है और शारोन की घाटी सूखी और उजाड़ है। बाशान और कर्मल जो कभी एक सुन्दर वृक्ष के समान विकसित हो रहे थे, अब उन वृक्षों का विकास रुक गया है।

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----|
| אֲנִישָׂא: | עֲתָה | אֲרוּמָם | עֲתָה | יְהוָה | יֹאמַר | אֶקוּם | עֲתָה | 10 |
| मैं-महान-होऊँगा | अब | मैं-ऊँचा-होऊँगा | अब | यहोवा | कहता-है | मैं-उठूँगा | अब | |
| H5375 | H6258 | | H6258 | H3068 | H0559 | | H6258 | |

यहोवा कहता है, “मैं अब खड़ा होऊँगा और अपनी महानता दर्शाऊँगा। अब मैं लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनूँगा।

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| תֹּאכְלֶכֶם: | אֵשׁ | רוּחֹתֵם | קֶשׁ | תְּלִדוֹ | חֲשָׁשׁ | תְּהַרְוֶהוּ | 11 |
| तुमको-खाएगी | आग | तुम्हारी-आत्मा | भूसी | तुम-जन्म-दोगे | सूखे-घास | तुम-गर्भ-धारण-करोगे | |
| H0398 | H0784 | H7307 | H7179 | H3205 | H2842 | H2029 | |

तुम लोगों ने बेकार के काम किये हैं। वे चीजें भूसे और सूखी घास के जैसे हैं। वे बेकार हैं। तुम्हारी आत्मा अग्नि के समान हो जायेगी और तुम्हें जला डालेगी।

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| וְהָיוּ | עַמִּים | מִשְׁרָפוֹת | שָׂדֵה | קוֹצִים | כֶּסוּחַיִם | בְּאֵשׁ | יִצְתָּו: | 12 |
| और-होंगे | लोग | जलने-जैसे | चूना | काँट | कटे-हुए | आग-में | वे-जलेंगे | |
| H1961 | | H4955 | H7875 | H6975 | H3683 | H0784 | H3341 | |

लोग तब तक जलते रहेंगे जब तक उनकी हड्डियाँ जल कर चूने जैसी नहीं हो जाती। लोग काँटों और सूखी झाड़ियों के समान जल्दी ही जल जायेंगे।

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|----|
| שָׁמְעוּ | רְחוּקִים | אֲשֶׁר | עָשִׂיתִי | וְדַעוּ | קְרוּבִים | גְּבוּרָתִי: | 13 |
| सुनो | दूर-के-लोगों | जो | मैंने-किया | और-जानो | निकट-के-लोगों | मेरी-शक्ति-को | |
| H8085 | H7350 | | H3045 | | H7138 | H1369 | |

“दूर देशों के लोगों, जो काम मैंने किये हैं, तुम उनके बारे में सुनते हो। हे मेरे पास के लोगों, तुम मेरी शक्ति को समझते हो।”

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| פָּתְרוּ | בְּצִיּוֹן | חַטָּאִים | אֲחִיָּה | רְעֵדָה | חַנּוּפִים | יְגוּר | לָנוּ | אֵשׁ | 14 |
| डरे | सिख्योन-में | पापी | पकड़-लिया | कंपन | कपटियों-को | कौन | हम-के-साथ | आग | |
| H6342 | H6726 | H2400 | H0270 | | H2611 | H4310 | H0784 | | |
| | | | | | עוֹלָם: | מוֹקְדֵי | לָנוּ | יְגוּר | |
| | | | | | सनातन-की | ज्वालाओं | हम-के-साथ | रहेगा | |
| | | | | | H5769 | H4168 | | H4310 | H0398 |

सिख्योन में पापी डरे हुए हैं। वे लोग जो बुरे काम किया करते हैं, डर से थर—थर काँप रहे हैं। वे कहते हैं, “क्या इस विनाशकारी आग से हम में से कोई बच सकता है कौन रह सकता है इस आग के निकट जो सदा—सदा के लिये जलती रहती है”

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| נָעַר | מַעֲשָׂוֹת | בְּבִצֵּעַ | מֵאֵס | מִישָׁרִים | וְדַבֵּר | צְדָקוֹת | הִלָּל | 15 |
| झाड़नेवाला | अत्याचारों-के | -के-लाभ-में | तुच्छ-जाननेवाला | सीधी-बातें | और-बोलनेवाला | धार्मिकता-में | चलनेवाला | |
| H5287 | H4642 | H1215 | | H4339 | H1696 | H6666 | H1980 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| עֵינָיו | וְעַצֵּם | דָּמִים | מִשְׁמָע | אָזְנוֹ | אֹתָם | בְּשִׁחָר | מִתְמַדָּה | כַּפְּיוֹ |
| उसकी-आँखें | और-बंद-करनेवाला | खून-की-बातें | -से-सुनने | उसका-कान | बंद-करनेवाला | रिश्वत-को | -से-पकड़ने | उसके-हाथों |
| | | H1818 | H8085 | H0241 | H0331 | H7810 | H8551 | H3709 |

מְרֵאֵת
-से-देखने
:בָּרַע
बुराई-की
[H7200](#)

वे लोग ही इस आग में से बच पायेंगे जो अच्छे हैं, सच्चे हैं। वे लोग पैसे के लिये दूसरों को हानि नहीं पहुँचाना चाहते। वे लोग घूस नहीं लेते। दूसरे लोगों की हत्याओं की योजना को वे सुनने तक से मना कर देते हैं। बुरे काम करने की योजनाओं को वे देखना भी नहीं चाहते।

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| מִימִיו | נָתַן | לְחַמּוֹ | מִשְׁבָּבוֹ | סִלְעִים | מְצֻדוֹת | יִשְׁכֵּן | מְרוֹמִים | הָוָא | 16 |
| उसका-जल | दी-जाएगी | उसकी-रोटी | उसका-शरणस्थान-होगा | चट्टानों-के | गढ़ | निवास-करेगा | ऊँचाइयों-में | वह | |
| H4325 | H5414 | H3899 | | H5553 | H4679 | H7931 | H4791 | H1931 | |

נְאֻמֵּי:
विश्वसनीय-होगा
[H0539](#)

ऐसे लोग ऊँचे स्थानों पर सुरक्षा पूर्वक निवास करेंगे। ऊँची चट्टान की गढ़ियों में वे सुरक्षित रहेंगे। ऐसे लोगों के पास सदा ही खाने को भोजन और पीने को जल रहेगा।

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| מְרַחֲקִים: | אָרֶץ | תְּרַאֲיֶנָּה | עֵינֶיךָ | תַּחֲזִינָה | בְּיָפוֹ | מֶלֶךְ | 17 |
| दूरियों-की | भूमि | वे-देखेंगी | तेरी-आँखें | तेरी-आँखें-देखेंगी | उसकी-सुन्दरता-में | राजा-को | |
| H4801 | H0776 | H7200 | | H2372 | H3308 | H4428 | |

तुम्हारी आँखें उस राजा (परमेश्वर) का, उसकी सुंदरता में दर्शन करेंगी। तुम उस महान धरती को देखोगे।

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----|
| אֶת- | סָפַר | אֵינָהּ | שָׁלַל | אֵינָהּ | סָפַר | אֵינָהּ | אֵימָה | יִהְיֶה | לְבָרָהּ | 18 |
| -को | गिनती-करनेवाला | कहाँ | तौलनेवाला | कहाँ | गिनती-करनेवाला | कहाँ | भय | सोचेंगा | तेरा-हृदय | |
| H0853 | | H0346 | H8254 | H0346 | | H0346 | H0367 | H1897 | | |

הַמִּנְדְּלִים:
मीनारों-का
[H4026](#)

बीते हुए दिनों में तुमने जो कष्ट उठाये हैं, तुम उनके बारे में सोचोगे। तुम सोचोगे, “दूसरे देशों के वे लोग कहाँ हैं वे लोग ऐसी बोली बोला करते थे, जिसे हम समझ नहीं सकते थे। दूसरे देशों के वे सेवक और कर एकत्र करने वाले कहाँ है वे गुप्तचर जिन्होंने हमारी सुरक्षा मिनारों का लेखा जोखा लिया था, कहाँ हैं वे सब समाप्त हो गये!”

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|----|
| לְשׁוֹן | נִלְעַג | מִשְׁמָעוֹ | שָׁפָה | עָמְקוֹ | עַם | תְּרַאֲהָ | לֹא | נוֹעַז | עַם | אֶת- | 19 |
| जीभ-के | ठट्टे-करनेवाले | -से-समझने | भाषा-के | गहरे | लोग | तू-देखेगा | नहीं | अहंकारी | लोग | -को | |
| H3956 | H3932 | H8085 | H8193 | H6012 | | H7200 | H3808 | H3267 | | H0853 | |

בִּינָה:
समझ
אֵין
बिना
[H0998](#) [H0369](#)

बीते हुए दिनों में तुमने जो कष्ट उठाये हैं, तुम उनके बारे में सोचोगे। तुम सोचोगे, “दूसरे देशों के वे लोग कहाँ हैं वे लोग ऐसी बोली बोला करते थे, जिसे हम समझ नहीं सकते थे। दूसरे देशों के वे सेवक और कर एकत्र करने वाले कहाँ है वे गुप्तचर जिन्होंने हमारी सुरक्षा मिनारों का लेखा जोखा लिया था, कहाँ हैं वे सब समाप्त हो गये!”

20
 בל- אהל שאנן נוה ירושלים תראינה עיניך מועדנו קרית ציון חנה 20
 जो-नहीं- तंबू शान्त निवास यरूशलेम-को देखेगी तेरी-आँखें हमारे-पर्वो-का नगर सिव्थोन-को देख
[H1077](#) [H0168](#) [H7600](#) [H3389](#) [H7200](#) [H4150](#) [H7151](#) [H6726](#) [H2372](#)

ינתקו: בל- חבליו וכל- לנצח יחדתיו יטע בל- יצעו
 टूटेंगी जो-नहीं- उसकी-रस्सियाँ और-कोई- सदा-को उसकी-खूंटियाँ खींची-जाएगी जो-नहीं- हिलाया-जाएगा
[H5423](#) [H1077](#) [H3605](#) [H5331](#) [H3489](#) [H5265](#) [H1077](#) [H6813](#)

हमारे धर्मिक उत्सवों की नगरी, सिव्थोन को देखो। विश्राम निवास के उस सुन्दरस्थान यरूशलेम को देखो। यरूशलेम उस तंबू के समान है जिसे कभी उखाड़ा नहीं जायेगा। वे खूँटे जो उसे अपने स्थान पर थामे रखते हैं, कभी उखाड़े नहीं जायेंगे। उसके रस्से कभी टूटेंगे नहीं।

21
 ידים רחבי יארים נהרים מקום- לנו יהנה אריר שם אם- כי 21
 हाथों-में चौड़े नहरों-का नदियों-का स्थान- हमारे-लिए-है यहोवा प्रतापी वहाँ यदि- क्योंकि
[H3027](#) [H7342](#) [H2975](#) [H5104](#) [H4725](#) [H3068](#) [H0117](#) [H8033](#)

לא יעברנו: אריר וצי שיט אני- בו תלה בל-
 पार-करेगा नहीं शानदार और-जहाज़ चप्पू-की नाव- उसमें चलेगी जो-नहीं-
[H3808](#) [H0117](#) [H6716](#) [H7885](#) [H0590](#) [H3212](#) [H1077](#)

वहाँ हमारे लिए शक्तिशाली यहोवा विस्तृत झरनों और नदियों वाले एक स्थान के समान होगा। किन्तु उन नदियों पर कभी शत्रु की नौकाएँ अथवा शक्तिशाली जहाज़ नहीं होंगे। उन नौकाओं पर काम करने वाले तुम लोग रस्सियों को नहीं थामे रख सके। तुम मस्तूल को मजबूत नहीं बनाये रख सके। सो तुम अपनी पालों को भी नहीं खोल पाओगे। क्यों क्योंकि यहोवा हमारा न्यायकर्ता है। यहोवा हमारे लिए नियम बनाता है। यहोवा हमारा राजा है। वह हमारी रक्षा करता है। इसी से यहोवा हमें बहुत सा धन देगा। यहाँ तक कि अपाहिज लोग भी युद्ध में बहुत सा धन जीत लेंगे।

22
 יושענו: הוא מלכנו יהוה מחקקנו יהוה שפטנו יהוה כי 22
 हमें-बचाएगा वह हमारा-राजा-है यहोवा हमारा-व्यवस्थापक-है यहोवा हमारा-न्यायी-है यहोवा क्योंकि
[H3467](#) [H1931](#) [H4428](#) [H3068](#) [H2710](#) [H3068](#) [H8199](#) [H3068](#)

वहाँ हमारे लिए शक्तिशाली यहोवा विस्तृत झरनों और नदियों वाले एक स्थान के समान होगा। किन्तु उन नदियों पर कभी शत्रु की नौकाएँ अथवा शक्तिशाली जहाज़ नहीं होंगे। उन नौकाओं पर काम करने वाले तुम लोग रस्सियों को नहीं थामे रख सके। तुम मस्तूल को मजबूत नहीं बनाये रख सके। सो तुम अपनी पालों को भी नहीं खोल पाओगे। क्यों क्योंकि यहोवा हमारा न्यायकर्ता है। यहोवा हमारे लिए नियम बनाता है। यहोवा हमारा राजा है। वह हमारी रक्षा करता है। इसी से यहोवा हमें बहुत सा धन देगा। यहाँ तक कि अपाहिज लोग भी युद्ध में बहुत सा धन जीत लेंगे।

23
 אז ס פשו בל- תרנם כן- יחקו בל- חבליו נטשו 23
 तब झंडा वे-फैलाए जो-नहीं- उनके-मस्तूल-को ऐसे- वे-कसेंगे जो-नहीं- तेरी-रस्सियाँ ढीली-हो-गई
[H5251](#) [H6566](#) [H1077](#) [H8650](#) [H3653](#) [H2388](#) [H1077](#) [H5203](#)

בז: בזו פסחים מרבה שלל עד- חלק
 लूट लूटे लंगड़े बहुत लूट -तक बाँटी-गई
[H0957](#) [H0962](#) [H6455](#) [H4766](#) [H7998](#) [H5706](#)

वहाँ हमारे लिए शक्तिशाली यहोवा विस्तृत झरनों और नदियों वाले एक स्थान के समान होगा। किन्तु उन नदियों पर कभी शत्रु की नौकाएँ अथवा शक्तिशाली जहाज़ नहीं होंगे। उन नौकाओं पर काम करने वाले तुम लोग रस्सियों को नहीं थामे रख सके। तुम मस्तूल को मजबूत नहीं बनाये रख सके। सो तुम अपनी पालों को भी नहीं खोल पाओगे। क्यों क्योंकि यहोवा हमारा न्यायकर्ता है। यहोवा हमारे लिए नियम बनाता है। यहोवा हमारा राजा है। वह हमारी रक्षा करता है। इसी से यहोवा हमें बहुत सा धन देगा। यहाँ तक कि अपाहिज लोग भी युद्ध में बहुत सा धन जीत लेंगे।

24
 עון: נשא בה תשוב העם חליתי שכן יאמר ובל- 24
 पाप क्षमा-प्राप्त उसमें रहनेवाले लोग मैं-बीमार-हूँ निवासी कहेगा और-जो-नहीं-
[H5771](#) [H5375](#) [H3427](#) [H7934](#) [H0559](#) [H1077](#)

वहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा, "मैं रोगी हूँ।" वहाँ रहने वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनके पाप क्षमा कर दिये गये हैं।